

संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा - मुख्य परीक्षा
(Download) UPSC Mains 2000 General Studies Question
Paper
सामान्य अध्ययन-I

Exam Name: UPSC IAS Mains General Studies (Paper-1)

Year: 2000

प्रश्न पत्र -I- 2000

समय: तीन घंटे

पूर्णांक: 300

1. निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर दीजिए (लगभग 250 शब्द) 30

(क) स्वदेशी आन्दोलन की उत्पत्ति की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। जनसमूह इससे कैसे सम्बन्धित हुआ ?

(ख) माउन्टबेटन योजना क्या थी ? योजना के प्रति गाँधी और आजाद की प्रतिक्रिया की विवेचना कीजिए।

2. निम्नलिखित में से किन्हीं दो के उत्तर दीजिए: (प्रत्येक पर लगभग 150 शब्द) 15×2 = 30

(क) आर्य समाज की स्थापना किसने की ? इसका लक्ष्य क्या था ?

(ख) भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में आतंकवादी आन्दोलन कैसे सशक्त हुआ ?

(ग) भारत की विदेश-नीति की आधारशिला के रूप में गुटनिरपेक्षता के सिद्धान्त को अपनाने में क्या जवाहरलाल नेहरू न्यायसंगत थे ?

3. निम्नलिखित के उत्तर दीजिए: (प्रत्येक पर लगभग 75 शब्द) 10×3 = 30

(i) ब्रह्मगुप्त

(ii) अमीर खुसरो

(iii) विलियम जोन्स

(iv) सी. एफ. एन्ड्रयुज

(v) नारायण गुरु

(vi) ताँत्या टोपे

(vii) सैयद अहमद

(viii) मारगैरेट नोबुल

(ix) संगम साहित्य

(x) गांधार-कला शैली

(xi) ग्रंथ साहिब

(xii) फोर्ट विलियम कॉलेज

(xiii) इपसाम

(xiv) लाला अमरनाथ

(xv) टाइगर वुड्स

4. निम्नलिखित में से किन्हीं दो के उत्तर दीजिए (प्रत्येक पर लगभग 125 शब्द) $2 \times 10 = 20$

(क) वर्गीकरण का आधार बताते हुए भारत के कृषि-जलवायु प्रदेशों का उल्लेख कीजिए।

(ख) भारत के प्रमुख प्रजाति समूहों की व्याख्या कीजिए।

(ग) बंजर-भूमि क्या है ? भारत में बंजर-भूमि के विकास की सम्भावनाओं पर एक टिप्पणी लिखिए।

5. निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए (प्रत्येक पर लगभग 20 शब्द) $5 \times 2 = 10$

(i) भारत के भाषायी प्रदेश

(ii) नागार्जुनसागर परियोजना

(iii) आम्र बौछारें

(iv) भारत में बहु-स्तरीय नियोजन

(v) भारत की लेटराइट मिट्टियाँ

6. निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर दीजिए। (लगभग 250 शब्द) 30

(क) भारतीय संविधान की समीक्षा की आवश्यकता का परीक्षण कीजिये।

(ख) राज्यों की और अधिक स्वायत्तता की मांग तथा भारतीय राज्य व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन पर इसके प्रभाव का परीक्षण कीजिए।

7. निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर दीजिए। (लगभग 250 शब्द) 30

(क) संघीय कार्यपालिका पर संसद किस प्रकार नियंत्रण करती है ? यह नियंत्रण कितना प्रभावी होता है ?

(ख) न्यायपालिका द्वारा दिया गया भारतीय संविधान के 'आधारभूत अभिलक्षण' का सिद्धान्त क्या है ?

8. निम्नलिखित में से किन्हीं दो के उत्तर दीजिए: (प्रत्येक पर लगभग 150 शब्द) $15 \times 2 = 30$

(क) भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आवश्यक निर्वाचन संबंधी सुधारों को इंगित कीजिये।

(ख) आकलन समिति की भूमिका का परीक्षण कीजिये।

(ग) भारत में संघीय व्यवस्था को प्रभावित करने वाले प्रमुख गैर-संवैधानिक कारकों का विवेचन कीजिये।

9. निम्नलिखित के उत्तर दीजिए: (प्रत्येक पर लगभग 20 शब्द) $5 \times 2 = 10$

(क) लेखानुदान क्या है ?

(ख) कामचलाऊ सरकार किसे कहते हैं ?

(ग) क्या आप राज्य सभा के माध्यम से प्रधानमंत्री के संसद में प्रवेश को उचित मानते हैं ?

(घ) विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या हैं ?

(ङ) संसद की अवमानना से क्या तात्पर्य है ?

10. निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर दीजिए: (लगभग 250 शब्द) 30

(क) निम्नलिखित से सम्बन्धित मानव अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम (1993) के प्रावधानों की विवेचना कीजिए:

(i) मानवाधिकार की परिभाषा।

(ii) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन

(iii) आयोग के कार्य।

(iv) एन. एच. आर. सी. की भूमिका को अधिक प्रभावी बनाने हेतु अधिनियम में क्या संशोधन प्रस्तावित हैं ?

(ख)कारागारों में उत्पीड़न तथा मानव मर्यादा के संदर्भ में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रस्तावों की विवेचना कीजिये।

11.निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर लिखिए: (प्रत्येक पर लगभग 125 शब्द)2×10=20

(क)जनहितवाद की व्याख्या कीजिये। इस वाद को कौन दर्ज करा सकता है और किस आधार पर न्यायालय इसे अस्वीकार कर सकता है ?

(ख)मानवीय ज़ेनोम की विवेचना कीजिए ।

(ग)उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भवनों एवं स्थलों के विनियमन विधेयक, 2000 जिससे अल्पसंख्यकों का विरोध बढ़ा, की प्रमुख विशेषताओं क्या है ?

12.निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणियाँ लिखिए (प्रत्येक पर लगभग 125 शब्द)2×10=20

(क) यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन

(ख) इकनामिक एण्ड सोशल काउन्सिल

(ग) पफ्लोरेंस नाइटिंगेल

13.निम्नलिखित के बारे में लिखिए (प्रत्येक पर लगभग 20 शब्द)2×5=10

(क) सी आर वाई

(ख) बाबा आम्टे

(ग) अली सरदार जापफरी

(घ) 'वाटर'

(घ) अरूणा राय